

## ACT की सरकारी स्वास्थ्य प्रणाली के लिए एक नया डिजिटल हेल्थ (स्वास्थ्य) रिकॉर्ड

12 नवम्बर 2022 से, ACT की सरकारी स्वास्थ्य प्रणाली नए Digital Health Record (DHR – डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड) का प्रयोग करेगी।

DHR एक नई इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य प्रणाली है, जो ACT की सभी सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं का प्रयोग करने वाले रोगियों की स्वास्थ्य-संबंधी जानकारी को सुरक्षित रूप से संभालकर रखती है।

आपके डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड को आपकी स्वास्थ्य-देखभाल टीम द्वारा किसी भी सरकारी स्वास्थ्य सेवा स्थल पर एक्सेस और प्रयुक्त किया जा सकता है।

इसमें निम्नलिखित सेवाएँ शामिल होंगी\*:

- Canberra Hospital
- Calvary Public Hospital Bruce
- Centenary Hospital for Women and Children
- University of Canberra Hospital
- सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र
- ACT में वॉक-इन सेंटर
- Clare Holland House

इसलिए, ACT की सरकारी स्वास्थ्य प्रणाली में चाहे आप कहीं भी चिकित्सीय इलाज कराएँ, आपके क्लिनिशियन के पास आपके रिकॉर्ड्स तक सुरक्षित और संरक्षित पहुँच होगी – और आपकी देखभाल आवश्यकताओं पर ध्यान देने के लिए अधिक समय भी।

अधिकांश स्वास्थ्य जानकारी जिसे डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड में संभालकर रखा जाएगा, उसे पहले से ही कागज़ी तौर पर या मौजूदा क्लिनिकल आईटी प्रणालियों में एकत्र किया जा रहा है।

### सुरक्षित और संरक्षित

DHR को कैनबरा में एक से अधिक सुरक्षित डेटा सेंट्रों में होस्ट किया जाता है। इन डेटा सेंट्रों के पास अच्छे से स्थापित सिक््योरिटी कंट्रोल हैं, जो उन्हें ऑस्ट्रेलिया की संघीय सरकार के डेटा को गुप्त रूप से संभालकर रखने में सक्षम बनाते हैं।

### धैर्य बनाए रखना और विनम्र बने रहना याद रखें

यदि आप मध्य नवम्बर से किसी सरकारी स्वास्थ्य सेवा पर जाने वाले/ली हैं, तो हो सकता है कि आपको थोड़े विलंब का सामना करने पड़े क्योंकि आपके स्वास्थ्य देखभाल कर्मचारी नई प्रणाली का प्रयोग करने में बेहतर बन रहे हैं – कृपया धैर्य बनाए रखें और हमारे कर्मचारियों के प्रति विनम्र रहें, जो एक व्यस्त परिवेश में कड़ा परिश्रम कर रहे हैं।



[dhr.act.gov.au](https://dhr.act.gov.au)  
पर और अधिक पता लगाएँ

\* DHR में गैर-सरकारी स्वास्थ्य केन्द्र शामिल नहीं हैं

Hindi | हिंदी

Connecting  
Your Care.

Initiative of



ACT  
Government